



B.J. DUPLEX BOARDS LIMITED

Regd. Office : H. No. 83, 3rd Floor, Chawri Bazar, Delhi-110006
Ph. : 011-42141100, 011-30251171, sbj@anandpulp.com
CIN: L21090DL1995PLC066281

13th February, 2021

To,

The Secretary
BSE Limited
The Stock Exchange, Mumbai
Corporate Relationship Department
Phiroze Jeejeebhoy Tower,
Dalal Street,
Mumbai- 400 001.

ISIN: INE265C01017 – B J DUPLEX BOARDS LIMITED

Sub: Intimation under Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sir,

In pursuant to Regulation 47 (1) (b) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Please find enclosed copies of Unaudited Standalone Financial Results of the company for the Third Quarter and Financial Year ended on December 31st, 2020 published in newspaper viz. Financial Express (English Newspaper) & haribhoomi (Hindi Newspaper) on February 13th 2021.

This is for your information and records.

Kindly take the same on your record.

Thanking You
Yours Faithfully
For B J DUPLEX BOARDS LIMITED

Divya Mittal



DIVYA MITTAL
COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER

EDYMANICS SOLUTIONS LIMITED

Reg. Office: 103, Vajra Park, 2, DNI, LABOUR COLONY, Sector - 3, Okhla Industrial Area, New Delhi - 110028
STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 31.12.2020

Sl. No.	Particulars	Quarter ended		Year ended
		31.12.2020	31.12.2019	
1	Total Income	0.93	0.93	41.24
2	Net Profit (Loss) for the period (before tax, Exceptional Items)	(0.44)	(0.69)	0.13
3	Net Profit (Loss) for the period before tax (after Exceptional Items)	(0.44)	(0.69)	0.13
4	Net Profit (Loss) for the period before tax (after Exceptional Items) and for Extraordinary Items)	(0.44)	(0.69)	0.13
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/Loss and Other Comprehensive Income (after tax))	(0.44)	(0.69)	(0.01)
6	Equity Share Capital	2555.45	2555.45	2555.45
7	Reserves excluding Reserves under Extraordinary Items Audited Balance Sheet of the previous year 31.03.2020	993.00	993.00	993.00
8	Net Profit (Loss) for the period (before tax, Exceptional Items) (a) Basic (Rs.)	(0.901)	(0.892)	(0.069)
9	Net Profit (Loss) for the period (before tax, Exceptional Items) (b) Diluted (Rs.)	(0.901)	(0.892)	(0.069)

Note :
The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Financial Results are available on the Website of Stock Exchange (S) www.bseindia.com and on the Company's Website (www.edymanics.com) and Company's website (http://www.edymanics.com).
The impact on net profit, loss, total comprehensive income or any other relevant financial item (s) due to changes in Accounting policies shall be disclosed by means of a footnote.
- Exceptional and Extraordinary items disclosed in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind-AS Rules/ AS Rules. Wherever is applicable.

Place: Delhi
Date: 11.02.2021

By Order of the Board
EDYMANICS SOLUTIONS Ltd.
Vikas Shah
DIRECTOR

PORSCHE CAPITAL MARKET LIMITED

CIN: L28998DL1989PLC023635
REG. OFFICE: K4-140, 2ND FLOOR, PARUL EXTENSION NEAR MANUJI WORKSHOP, DELHI - 110077
STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 31.12.2020

Sl. No.	Particulars	Quarter ended		Year ended
		31/12/2020	31/12/2019	
1	Total Income	6.25	4.97	20.27
2	Net Profit (Loss) for the period (before tax, Exceptional Items)	0.14	0.12	1.43
3	Net Profit (Loss) for the period before tax (after Exceptional Items)	0.14	0.12	1.43
4	Net Profit (Loss) for the period before tax (after Exceptional Items) and for Extraordinary Items	0.14	0.12	1.43
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/Loss and Other Comprehensive Income (after tax))	0.14	0.12	1.43
6	Equity Share Capital	1895.03	1895.03	1895.03
7	Reserves excluding Reserves under Extraordinary Items Audited Balance Sheet of the previous year 31.03.2020	12.70	12.70	12.70
8	Earnings Per Share of Rs. '10:-' (a) Basic (Rs.)	0.001	0.002	0.003
9	Earnings Per Share of Rs. '10:-' (b) Diluted (Rs.)	0.001	0.002	0.003

Note :
The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Financial Results are available on the Website of Stock Exchange (S) www.bseindia.com and on the Company's Website (www.porsche-capital.com).
The impact on net profit, loss, total comprehensive income or any other relevant financial item (s) due to changes in Accounting policies shall be disclosed by means of a footnote.
- Exceptional and Extraordinary items disclosed in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind-AS Rules/ AS Rules. Wherever is applicable.

Place: Delhi
Date: 10.02.2021

By Order of the Board
FOR PORSCHE CAPITAL MARKET LIMITED
RAJANI RIBEY
DIRECTOR

B J DUPLEX BOARDS LIMITED

Regd. Office: H. NO. 63, TIF CHAWRI BAZAR, DELHI-110006
Landline: (91)-11-41410139 CIN: L210990DL1999PC0056281

Extract of Unaudited Standalone Financial Results for the Third Quarter & Nine Months Ended on December 31st, 2020

Sl. No.	Particulars	Quarter ended		Nine Months Ended	
		31 st December 2020	31 st December 2019	31 st December 2020	31 st December 2019
1	Total Income from operations	0.00	0.02	0.05	0.07
2	Net Profit/(Loss) for the period (before tax, Exceptional Items)	(1.44)	(0.80)	(2.87)	(7.02)
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional Items)	(1.44)	(0.80)	(2.87)	(7.02)
4	Net Profit for the period after tax (after Exceptional Items)	(1.44)	(0.80)	(2.87)	(7.02)
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	(1.44)	(0.80)	(2.87)	(7.02)
6	Equity Share Capital (face Value of Rs. '10,- each)	37.66	37.66	37.66	37.66
7	Reserve/excluding Reservations as shown in the Audited Balance Sheet of previous Year	0	0	0	0
8	Earning Per Share (of Rs. '10,- each) for continuing and discontinued operations) (a) Basic (b) Diluted	(0.227)	(0.015)	(0.056)	(0.14)

Note: -
1) The above is an extract of the detailed format of quarterly/annual financial results for the Third quarter and nine months ended on December 31st, 2020 as per Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results for the Third quarter ended on December 31st, 2020 is available on the Website of Stock Exchanges (www.bseindia.com) and Company's website (http://www.bjduplexboards.com).
2) The Company has adopted Indian Accounting Standards (IND AS) prescribed under the Accounting Act, 2013 read with relevant rules there under, with effect from April 1, 2017 and accordingly these financial results have been prepared in accordance with Ind-AS notified under the Accounting Act, 2013 read with relevant rules there under. For the Companies (Indian Accounting Standards) (Amendments) Rules, 2016 For B J DUPLEX BOARDS LIMITED

Place: Delhi
Date: 12th February, 2021

By Order of the Board
B J DUPLEX BOARDS LIMITED
Divya Mittal
Company Secretary

AKASHDEEP METAL INDUSTRIES LIMITED

CIN: L28998DL1983PLC017150
Registered Office: 14 Daryanand Vihar, Backside Ground Floor,
Vikas Mang Etn., Delhi-110092 Tel:- +91-11-43011038.

Email : info.akashdeep14@gmail.com, website : www.akashdeepmetal.in

Extract of Unaudited Consolidated Financial Results for the Quarter and Nine Months Ended on 31st December 2020

Sl. No.	PARTICULARS	Quarter ended		Year ended
		31/12/2020	31/12/2019	
1	Total income from operations	2,21,51,997.48	1,60,88,131.00	4,52,50,398.07
2	Net Profit/(Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	1,40,08,976.00	1,10,53,894.00	2,63,29,745.26
3	Net Profit (Loss) for the period before tax (after Extraordinary and/or Extraordinary Items)	1,40,08,976.00	1,10,53,894.00	2,63,29,745.26
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	1,04,44,032.59	1,09,24,627.00	1,93,59,140.36
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	1,04,44,032.59	1,09,24,627.00	1,92,26,086.11
6	Paid-up Equity Share Capital (Face Value Rs. 10/-)	8,50,26,210.00	8,50,26,210.00	8,50,26,210.00
7	Earnings Per Share (of Rs. '10-each) Basic and diluted (not annualised)	1.21	1.28	2.08

Note: - 1) The above is an extract of the detailed format of result for Quarter and Nine Months ended on 31st December, 2020 filed with stock exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the said results are available on the website of BSE at www.bseindia.com as well as on the company's website at www.akashdeepmetal.in

2) The key Standalone Financial Information for the Quarter and Nine Months ended on 31st December, 2020 are given below:
(Amount in Rupees)

Particulars	Quarter Ended 31/12/2020	Quarter Ended 31/12/2019	Nine Months Ended 31/12/2020	Nine Months Ended 31/12/2019
Turnover	538,10,987.87	1,40,162.00	160,31,782.87	176,32,501.57
Profit before tax	1,30,54,301.03	6,88,141.00	142,27,534.50	1,13,21,587.31
Profit after tax	95,56,485.90	4,63,952.00	104,21,130.25	1,10,15,702.35

Place: Delhi
Date: 11.02.2021

For Akashdeep Metal Industries Limited (Sd/-)
Rajesh Gupta
Managing Director
DIN : 00006056

**NDR Auto Components Limited**

Regd. Office : Level - 5, Regus Caddis Commercial Tower, Hospitality District Aerocity, G/I Airport, New Delhi - 110037
Website: www.ndrauto.com; Email: cs@ndrauto.com; Phone: +91 11 66544976
CIN: U28930DL2019PLC347460

STATEMENT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2020
(Rs. in Lakhs except per share data)

Sl. No.	Particulars	Quarter ended		Nine Months Ended		Year ended
		31.12.2020	30.09.2020	31.12.2019	31.12.2019	
1	Total income from operations	3,339.13	3,027.82	1,701.42	6,794.61	5,954.20
2	Net profit/(loss) for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	386.37	337.45	(48.50)	565.76	145.78
3	Net profit/(loss) for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	386.37	337.45	(48.50)	565.76	145.78
4	Net profit/(loss) for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	286.41	289.50	(93.63)	439.43	107.77
5	Total comprehensive income/(loss) for the period (comprising profit for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax))	281.55	294.63	(82.05)	424.89	122.05
6	Equity share capital	594.63	594.63	594.63	594.63	594.63
7	Other equity (reserves) (including provision/ reserves) shown in the audited balance sheet	-	-	-	12,668.04	-
8	Earnings per share (of Rs. '10,- each) for continuing and discontinued operations) (a) Basic (Rs.) (b) Diluted (Rs.)	4.82	4.87	(1.57)	7.39	1.81

Note: - 1) The above is an extract of the detailed format of quarterly/nine months unaudited standalone financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly/nine months unaudited standalone financial results are available on the website of the Company (www.ndrauto.com) and on the website of BSE (www.bseindia.com) and NSE (www.nseindia.com).
2) The above unaudited standalone financial results of NDR Auto Components Limited ("the Company") have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (IND-AS) as prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with Rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 and the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2016 and relevant amendments thereto.
3) The above unaudited standalone financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 11th February 2021. The above financial results of NDR Auto Components Limited for quarter period ended December 31, 2020 subjected to limited review by the statutory auditors of the Company in accordance with the Standard on Review Engagements (SRE) 2410 issued by the Institute of Chartered Accountants of India. The figures reported above for the quarter and nine months ended on December 31, 2019 are management certified figures and not subjected to limited review.
For and on behalf of the Board of Directors
Sd/-
Pranay Gurungam
Date: 11th February 2021
Whole Time Director

**NDR Auto Components Limited**

Regd. Office : Level - 5, Regus Caddis Commercial Tower, Hospitality District Aerocity, G/I Airport, New Delhi - 110037
Website: www.ndrauto.com; Email: cs@ndrauto.com; Phone: +91 11 66544976
CIN: U28930DL2019PLC347460

STATEMENT OF CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2020
(Rs. in Lakhs except per share data)

Sl. No.	Particulars	Quarter ended		Nine Months Ended		Year ended
		31.12.2020	30.09.2020	31.12.2019	31.12.2019	
1	Total income from operations	3,327.13	3,027.82	1,701.42	6,737.61	5,843.95
2	Net profit/(loss) for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items and/or share of associate and joint venture)	374.37	282.45	(48.50)	528.76	35.53
3	Net profit/(loss) for the period before tax (but after exceptional, extraordinary items and/or share of associate and joint venture)	863.66	456.15	66.67	564.33	493.37
4	Net profit/(loss) for the period after tax, exceptional, extraordinary items and/or share of associate and joint venture	507.57	386.76	(7.39)	421.24	438.54
5	Total comprehensive income/(loss) for the period (comprising profit for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax))	502.82	382.03	8.24	407.01	458.87
6	Equity share capital	594.63	594.63	594.63	594.63	594.63
7	Other equity (reserves) (including provision/ reserves) shown in the audited balance sheet	-	-	-	16,392.81	-
8	Earnings per share (of Rs. '10,- each) for continuing and discontinued operations) (a) Basic (Rs.) (b) Diluted (Rs.)	8.54	6.50	(0.12)	7.08	7.37

Note: - 1) The above is an extract of the detailed format of quarterly/nine months consolidated financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly/nine months consolidated financial results are available on the website of the Company (www.ndrauto.com) and on the website of BSE (www.bseindia.com) and NSE (www.nseindia.com).
2) The above unaudited consolidated financial results of NDR Auto Components Limited ("the Company") have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (IND-AS) as prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with Rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 and the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2016 and relevant amendments thereto.
3) The above unaudited consolidated financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 11th February 2021. The above financial results of NDR Auto Components Limited for quarter period ended December 31, 2020 subjected to limited review by the statutory auditors of the Company in accordance with the Standard on Review Engagements (SRE) 2410 issued by the Institute of Chartered Accountants of India. The figures reported above for the quarter and nine months ended on December 31, 2019 are management certified figures and not subjected to limited review.
For and on behalf of the Board of Directors
Sd/-
Pranay Gurungam
Date: 11th February 2021
Whole Time Director



I look at every side before taking a side.

Inform your opinion with insightful perspectives.

The Indian EXPRESS
— JOURNALISM OF COURAGE —

indianexpress.com

For All Advertisement Booking
Call : 0120-6651214

For Akashdeep Metal Industries Limited (Sd/-)
Rajesh Gupta
Managing Director
DIN : 00006056

GOOD YEAR
GOOD YEAR INDIA LIMITED
(CIN: L2511HR1361PLC008578)
Registered office: Mathura Road, Bahalagarh (Dist: Faridabad) - 121004, Haryana
Telephone: 0129-6611000 Fax: 0129-2305310 E-mail: gy_info@goodyear.com; Website: www.goodyear.co.in

EXTRACT OF STANDALONE UNAUDITED RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2020
(Rs. in Lakhs)

Particulars	Current 3 months ended		Preceding 3 months ended		Corresponding 3 months ended		Year to date figures for current period (9 Months)	Year to date figures for corresponding period ended (12 Months)	Year to date figures for previous year ended (12 Months)
	(31/12/2020)	(30/09/2020)	(31/12/2019)	(31/12/2019)	(31/12/2020)	(31/12/2019)			
1 Total income from operations	51,979	48,663	43,877	123,979	139,772	1,78,074			
2 Net Profit for the period (before tax, exceptional and or extraordinary items)	6,586	6,489	1,621	12,473	9,957	11,684			
3 Net Profit for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	6,586	6,489	1,621	12,473	9,957	11,684			
4 Net Profit for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	4,997	4,956	1,188	9,302	7,514	8,884			
5 Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (loss) (after tax))	5,163	4,919	975	9,614	7,229	8,477			
6 Paid-up equity share capital (Face Value of Rs.'10/- per share)	2,307	2,307	2,307	2,307	2,307	2,307			
7 Earnings Per Share (of Rs.'10/- each) for continuing and discontinued operations) (not annualised): a) Basic (Rs.) b) Diluted (Rs.)	21.23 21.23	21.05 21.05	5.15 5.15	40.33 40.33	33.01 33.01	38.51 38.51			

NOTE: - 1) The above is an extract of the detailed format of the Standalone Unaudited Financial Results for the quarter and nine months ended December 31, 2020 filed with Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended. The full format of the Standalone Unaudited Financial Results are available on the Stock Exchange website at www.bseindia.com and in terms of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 and the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2016 and relevant amendments thereto.
2) The Statement has been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards ("Ind AS") as prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules issued thereunder and in terms of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 and the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2016 and relevant amendments thereto.
3) The Company has adopted Indian Accounting Standards (IND AS) notified under the Accounting Act, 2013 read with relevant rules there under. For the Companies (Indian Accounting Standards) (Amendments) Rules, 2016 For Good Year India Limited
4) The Statement is subject to the audit of the auditors of the Company. The Company's financial results are not subject to audit by the auditor.
5) The Statement is subject to the audit of the auditors of the Company. The Company's financial results are not subject to audit by the auditor.
6) The Board of Directors of the Company at its meeting held on December 03, 2020 had declared an interim Dividend of INR 80 per equity share of face value of INR 10 per share. During the quarter the Company had declared total interim dividend of INR 18,453 lakhs.
7) The Board of Directors of the Company at its meeting held on December 31, 2020, in developing the financial results of the Company for the quarter ended December 31, 2020, has taken into consideration the impact of COVID-19 on the carrying amount of all assets and liabilities as at December 31, 2020. In developing the financial results of the Company for the quarter ended December 31, 2020, the Board of Directors has taken into consideration the impact of COVID-19 on the carrying amount of all assets and liabilities as at the date of approval of these financial results and would be recognized prospectively.
8) This Statement has been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on February 12, 2021.

Place: Noida
Date: February 12, 2021

For GOOD YEAR INDIA LIMITED (Sd/-)
Sandep Mahajan
Chairman and Managing Director

